



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 05 मई, 2021 / 15 वैशाख, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 04 मई, 2021

संख्या: गृह(ए)ए(3)—2 / 2020.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 23 के साथ पठित धारा 141 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं :—

इन प्रारूपों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति के यदि इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो/हों पर उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम, 2021 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह (ए)ए(3)-1/2005-पार्ट तारीख 11 मार्च, 2011 द्वारा अधिसूचित पंजाब पुलिस (हिमाचल प्रदेश संशोधन) नियम, 2011 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

भाग-II

3. कांस्टेबल की भर्ती.— भर्ती वर्ष में एक बार या ऐसे अन्तराल जैसा रिक्तियों के आधार पर यथा अपेक्षित सुनिश्चित (निर्धारित) किया जाए, शतप्रतिशत नियमित आधार पर की जाएगी ।

4. पदों की संख्या और नियुक्ति.— (1) पदों की संख्या ऐसी होगी, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित/सृजित की जाए ।

(2) कांस्टेबल के पद जिला की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भरे जाएंगे । महिला अभ्यर्थियों को पच्चीस प्रतिशत (25%) क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाएगा और उनके पदों को भर्ती के समस्त प्रवर्गों में पृथकतः भरा जाएगा ।

5. नियुक्ति प्राधिकारी.—सम्बद्ध जिला का पुलिस अधीक्षक नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

6. वेतन और भत्ते.—कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते आहरित करेगा जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अवधारित किया जाए ।

7. आरक्षण.—(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मध्य वर्टिकल आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । जनजातीय जिलों में आरक्षण की प्रतिशतता जिला स्तर के कांडर में लागू जनजातीय विकास विभाग के अनुदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी । अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वर्टिकल आरक्षण राज्य सरकार के समय-समय पर जारी विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा । भूतपूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता सैनानियों के प्रतिपाल्यों (वार्डों), अन्तोदय, आई0आर0डी0पी0, विशिष्ट खिलाड़ियों और गृह रक्षकों के लिए हॉरिजन्टल आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा । इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0), जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को हिमाचल पुलिस विभाग में कांस्टेबल की सीधी भर्ती में दस प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण प्रदान किया जाएगा ।

(2) यदि वर्टिकल या हॉरिजोनटल आरक्षण के अध्यक्षीन आरक्षित पद को उस प्रवर्ग से नहीं भरा जाता है, तो उस पद को रिक्त रखा जाएगा और मामला जिला भर्ती समिति के अध्यक्ष द्वारा पुलिस महानिदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों के लिए अध्यक्ष को जिला भर्ती समिति के अध्यक्ष द्वारा सचिव, भूतपूर्व सैनिक सैल हमीरपुर को नाम प्रेषित/प्रायोजित करने के लिए भेजा जाएगा। अध्यक्ष में प्रत्येक जिला के लिए पदों की संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी और नामों को तदनुसार प्रायोजित किया जाएगा।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त के विरुद्ध उपयुक्त/पात्र अभ्यर्थी की दशा में रिक्त को आगामी दो कैलेंडर वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा और तृतीय वर्ष में उक्त रिक्त को भूतपूर्व-सैनिकों के आश्रित पुत्रों/पुत्रियों और पत्नियों में से भरा जाएगा। यदि तृतीय वर्ष में पात्र/उपयुक्त अभ्यर्थी, जिनके लिए रिक्त पद आरक्षित हैं, उपलब्ध नहीं हो तो उसे पारस्परिक अवशिष्ट प्रवर्ग, जिसके हेतु उस वर्ष बिन्दु स्वतः सम्बन्धित है, में से भरा जाएगा। जब यह स्वभाविक हो कि भूतपूर्व-सैनिक पदों के किसी प्रवर्ग की नियुक्ति हेतु किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं होगा तो भूतपूर्व-सैनिकों के लिए इस प्रकार आरक्षित पदों को भूतपूर्व-सैनिक सैल, हिमाचल प्रदेश की पूर्व स्वीकृति से भूतपूर्व-सैनिकों के आश्रित पुत्रों, पुत्रियों और पत्नियों में से भरा जा सकेगा। यदि भरे जाने वाले प्राधिकृत पदों हेतु भूतपूर्व-सैनिकों के पुत्र, पुत्रियां और पत्नियां उपलब्ध न हों तो आरक्षण को आगामी दो कैलेंडर वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा जिसके पश्चात् रिक्त को पारस्परिक अवशिष्ट प्रवर्ग, जिसके हेतु बिन्दु सम्बन्धित है, में से भरा जाएगा।

8. पात्रता.—(1) शैक्षिक और अन्य अर्हताएं तथा शारीरिक मान निम्न प्रकार से होंगे:—

क्रम संख्या	प्रवर्ग	आयु	शैक्षिक अर्हता	लम्बाई		छाती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
				पुरुष	महिला	
1.	सामान्य	18 से 25 वर्ष	10+2	5'-6"	5'-2"	31''x 32"
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29''x 30"
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-6"	5'-2"	31''x 32"
4.	गोरखा	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29''x 30"
5.	गृह रक्षक (सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।	20 से 28 वर्ष	10+2	5'-6"	5'-2"	31''x 32"
6.	गृह रक्षक(अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)।	20 से 28 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29''x 30"
7.	गृह रक्षक (गोरखा)	20 से 28 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29''x 30"
8.	विशिष्ट खिलाड़ी (सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-6"	5'-2"	31''x 32"
9.	विशिष्ट खिलाड़ी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29''x 30"
10.	विशिष्ट खिलाड़ी (गोरखा)	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29''x 30"

(2) भूतपूर्व-सैनिकों की दशा में न्यूनतम अर्हता दसवीं पास होगी। तथापि, जब कभी भी रिक्तियां भूतपूर्व-सैनिकों के आश्रितियों को जाती हैं तो उनकी शैक्षिक अर्हता 10+2 होगी।

(3) अभ्यर्थी कांस्टेबल के पद की भर्ती के लिए पात्र होगा यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी संस्थान/स्कूल/बोर्ड से दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

9. आवेदन आमन्त्रित करने के लिए प्रक्रिया.—(1) भर्ती अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से कम-से-कम एक स्थानीय भाषा का होगा, में विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी। आकाशवाणी के स्थानीय चैनलों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन भी मंगवाए जाएंगे जो शैक्षिक और अन्य अर्हताएं परिपूर्ण करते हों केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख को हिमाचल के स्थायी निवासी हैं। विज्ञापन में, प्रत्येक प्रवर्ग में पृथकतः पुरुष तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित आयु, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं तथा शारीरिक मान और जिलावार रिक्तियों की संभाव्य संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) सामान्य अभ्यर्थियों से ऐसा प्रसंस्करण शुल्क जैसा पुलिस महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए प्रभारित किया जाएगा और इस फीस (शुल्क) का एक-चौथाई भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला, आई0 आर0डी0 पी0 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला, आई0 आर0 डी0पी0 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0 एस0) से सम्बन्धित आवेदकों (अभ्यर्थियों) से प्रभारित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से इस प्रकार एकत्रित की गई प्रसंस्करण फीस की रकम का उपयोग विभाग द्वारा भर्ती के संबंध में उपगत किए गए व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा एक पृथक बैंक लेखा संचालित किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। समस्त महानिरीक्षक/परिक्षेत्रों के उप-महानिरीक्षक और महानिरीक्षक (प्रशासन और कल्याण) इस बोर्ड के सदस्य होंगे। यह बोर्ड भर्ती प्रक्रिया के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

10. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया.—अभ्यर्थी कांस्टेबल के पद के लिए ऑनलाईन भर्ती आवेदन (ओ0आर0ए0) भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जो पुलिस विभाग की वेबसाइट <http://www.....> पर भी उपलब्ध हैं। वांछित/अपेक्षित परीक्षा फीस, स्कैनड फोटोग्राफ और विहित आकार के स्कैनड हस्ताक्षरों के बिना प्रस्तुत किए गए अपूर्ण ऑनलाईन भर्ती आवेदन तत्काल (सीधे तौर पर) अस्वीकृत किए जाएंगे। ऑनलाईन भर्ती आवेदन पर केवल उस जिला, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए स्थायी हिमाचली प्रमाण-पत्र के अनुसार आवेदक साधारणतया निवासी है, की रिक्तियों के संबंध में ही विचार किया जाएगा। ऑनलाईन भर्ती आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्रों की प्रतियां संलग्न नहीं की जाएगी। (वरन) प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं यह कथन करेगा कि ऑनलाईन भर्ती आवेदन में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सत्य और सही है। मूल प्रमाण पत्रों का वास्तविक सत्यापन केवल उन अभ्यर्थियों की बाबत ही किया जाएगा, जो 'मूल्यांकन' हेतु बुलाए गए हैं और कोई अभ्यर्थी जिसमें गलत या मिथ्या घोषणा की है। उस स्तर पर स्वतः ही निरर्हित हो जाएगा। किसी अभ्यर्थी को केवल स्थायी हिमाचली प्रमाण-पत्र में उसके निवास के रूप में दर्शाए जिला में रिक्ति के विरुद्ध ही विचारा जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु किसी अभ्यर्थी के प्रवर्ग की घोषणा की अंतिम (कट ऑफ) तारीख भर्ती नोटिस/विज्ञापन में उपबंधित की जाएगी और तत्पश्चात् प्रवर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. (1) भर्ती प्रत्येक जिला मुख्यालय में समिति द्वारा संचालित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी और इसके अन्य सदस्यों में पुलिस महानिदेशक द्वारा अन्य सदस्यों में पुलिस महानिदेशक द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट राज्य पुलिस बटालियन का एक कमांडेंट, जिला पुलिस अधीक्षक और सम्बद्ध जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक चिकित्सा अधिकारी होगा। समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, यदि इन प्रवर्गों का समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, से संबंधित किसी राजपत्रित अधिकारी को सहयोजित करेगी। समिति भर्ती प्रक्रिया में इसकी सहायता हेतु राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित अधिकारियों की अपेक्षित संख्या को भी सहयोजित कर सकेगी।

(2) समस्त प्राप्त हुए ऑनलाईन आवेदन जिला-वार (कर्माकित) क्रमबद्ध रूप में जनित किए जाएंगे।

12. शारीरिक मानपरीक्षण.—(1) समिति अभ्यर्थियों की लम्बाई और पुरुष अभ्यर्थियों की दशा में छाती की चौड़ाई के लिए मापन करवाएगी। समस्त माप चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी की शीट में अभिलिखित किया जाएगा और चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा समिति के

सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। समिति निम्नलिखित सारणी के अनुसार केवल लम्बाई के लिए ही अंक प्रदान करेगी:-

क्रम सं०	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लम्बाई	महिला अभ्यर्थियों के लिए लम्बाई	अंक
1.	5'-7" से कम	5'-2" से कम	0 अंक
2.	5'-7" किन्तु 5'-8" से कम	5'-2" किन्तु 5'-3" से कम	1 अंक
3.	5'-8" किन्तु 5'-9" से कम	5'-3" किन्तु 5'-4" से कम	2 अंक
4.	5'-9" किन्तु 5'-10" से कम	5'-4" किन्तु 5'-5" से कम	3 अंक
5.	5'-10" किन्तु 5'-11" से कम	5'-5" किन्तु 5'-6" से कम	4 अंक
6.	5'-11" और अधिक	5'-6" और अधिक	5 अंक

(2) अभ्यर्थी, जो नियम 8 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मानों को पूरा नहीं करते हैं, को संक्षिप्ततः अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें तदनुसार संसूचित कर दिया जाएगा।

13. अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण.—(1) अभ्यर्थियों जो शारीरिक मानों के अनुसार पात्र पाए गए हैं की सूची, समिति द्वारा शारीरिक मानपरीक्षण के संपूर्ण होने के तत्काल पश्चात् जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और अर्हित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जो निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार केवल अर्हता पूर्ण प्रकृति का होगा:-

क्रम सं०	प्रतिस्पर्धा	पुरुषों के लिए न्यूनतम अर्हतामान	महिलाओं के लिए न्यूनतम अर्हता मान
1.	पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ (महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़)	6 मिनट 30 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा)	4 मिनट 15 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा)
2.	ऊंची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)	न्यूनतम 1 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)
3.	लम्बी कूद	4 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)	3 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)

(2) समिति अभ्यर्थी की शीट में शारीरिक दक्षता परीक्षण का समय और दूरी का अभिलेख प्रविष्ट करवाएगी जिसे समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा सम्यक्! रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी, जो किसी प्रतिस्पर्धा को अर्हित करने में असफल रहते हैं, को तत्काल (तुरंत) निरर्हित कर दिया जाएगा और वे शेष प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकेंगे।

(4) पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा की वीडियोग्राफी की जाएगी।

14. मूल सूची (आधारक).—अभ्यर्थी के नाम, आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या और शारीरिक मान परीक्षण में प्राप्तांक सहित मूल सूची तैयार की जाएगी। सूची को ऑनलाईन प्रकाशित किया जाएगा और

सम्बद्ध जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा अर्हित अभ्यर्थियों को नियत तारीख, समय और स्थान पर लिखित परीक्षण के लिए रिपोर्ट करना होगा।

15. लिखित परीक्षा.—लिखित परीक्षा केवल जिला मुख्यालयों पर, अधिमानतः समस्त जिलों के लिए एक ही दिन आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 60 मिनट की अवधि के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के 80 अंकों की होगी। जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

- (क) अंग्रेजी भाषा —16 प्रश्न
- (ख) हिंदी भाषा —16 प्रश्न
- (ग) सामान्य ज्ञान—16 प्रश्न
- (घ) गणित और विज्ञान —16 प्रश्न
- (ङ) तर्क कौशल (अभिक्षमता)—16 प्रश्न

उपर्युक्त लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम गणित, जिसके लिए पाठ्यक्रम दसवीं के स्तर का होगा, के सिवाए 10+2 स्तर का होगा। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले और अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में कम से कम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही अर्हित समझा जाएगा। लिखित परीक्षा का परिणाम ऑनलाईन प्रदर्शित किया जाएगा और उसे संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर समस्त अभ्यर्थियों, जो लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, द्वारा अभिप्राप्त अंकों को दर्शाते हुए प्रदर्शित भी किया जाएगा।

16. मूल्यांकन.—कांस्टेबल वर्ग—III पदों के रैंक में कांस्टेबल के पद के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और विहित शैक्षिक अर्हता और निम्नलिखित मापदण्डों पर आधारित मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा:—

	लिखित परीक्षा (80 अंक) और लम्बाई (05 अंक)	कुल 85 अंक
(i)	नियम 8 के उपनियम (1) और (2) के उपबन्धों के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता नियम 8 के उपनियम 1 और 2 के उपबन्धों के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता (शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशत्ता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक $(50 \times 0.025 = 1.25)$ अनुज्ञात किए जाएंगे।	2.5 अंक (अढ़ाई)
(ii)	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित	1 (एक)
(iii)	भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को, सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	1 (एक)
(iv)	एन.सी.सी. प्रमाण-पत्रों में एन.सी.सी. (सी) प्रमाण-पत्र के लिए चार अतिरिक्त अंकों की और एन.सी.सी. (बी) प्रमाण-पत्र के लिए दो अतिरिक्त अंकों की वरीयता दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी के पास ये दोनों प्रमाण-पत्र हैं, उसको केवल एन.सी.सी. (सी) प्रमाण-पत्र के लिए ही अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में भारत स्काउट और गाईड पदक विजेता।	4 (चार)

(v)	हल्का मोटर यान चालन अनुज्ञप्ति धारक अभ्यर्थी	1.5 (डेढ़ अंक)
(vi)	खेल स्पर्धाओं में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थी: — (क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर = 4 (ख) राष्ट्रीय स्तर = 3 (ग) राज्य स्तर = 2	4 (चार)
(vii)	कार्मिक विभाग द्वारा यथा अधिसूचित राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	1 (एक)
	कुल योग . .	100

17. अन्तिम परिणाम का प्रकाशन.—(1) अन्तिम परिणाम, मूल सूची (नियम 14) और लिखित परीक्षा (नियम 15) और मूल्यांकन (नियम 16) में अभिप्राप्त कुल अंकों का योग होगा। अन्तिम परिणाम 100 में से तीनों स्तरों पर प्रत्येक में अभिप्राप्त अंकों को दर्शाते हुए और प्रत्येक आरक्षित प्रवर्गों की प्रस्थिति सहित, ऑनलाईन प्रदर्शित किया जाएगा और उन समस्त अभ्यर्थियों की बाबत जो मूल्यांकन के सम्पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। अन्तिम परिणाम शीट के टिप्पणी वाले स्तम्भ में हॉरिजोन्टल और वर्टिकल आरक्षण के दावों को भी दर्शाया जाएगा।

(2) प्रतीक्षा सूची को भी उसी समय और उसी रीति में तैयार किया जाएगा किन्तु उसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा तथा यदि किसी अभ्यर्थी के या तो कार्यग्रहण करने में असफल रहने या पश्चात्पूर्वी नियुक्ति के लिए उपयुक्त न पाए जाने के अवसर में सतर्कता बरतने के लिए सम्बद्ध पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखा जाएगा।

18. चिकित्सा परीक्षण.—(1) चयनित अभ्यर्थियों को सुसंगत चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा। चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण का परिणाम सम्बद्ध जिला पुलिस अधीक्षक के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण के समय गर्भवती पाई गई महिला अभ्यर्थी को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और वह प्रसव के ब्यालिस दिन की प्रसवावस्था अवधि के बाद चिकित्सा परीक्षण के लिए पुनः प्रस्तुत होगी।

(2) चिकित्सा रिपोर्ट के विरुद्ध अपील चिकित्सा परीक्षा परिणाम प्रदर्शित किए जाने के सात दिन के भीतर सम्बद्ध जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष की जा सकेगी। सम्बद्ध पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाला पुनः-निरीक्षण चिकित्सा बोर्ड गठित करेगा। यह बोर्ड तीस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रतीक्षा सूची से उपयुक्त अभ्यर्थी को उन अभ्यर्थियों, जिन्हें अन्तिम रूप से चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है के स्थान पर रखा जाएगा।

(4) कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरम्भ में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने हेतु डोप टेस्ट (परीक्षण) किया जाएगा।

19. चरित्र और पूर्ववृत्त.—(1) चयनित अभ्यर्थी जो अस्थाई रूप से चयनित किए गए हैं, के चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन सम्बद्ध जिला पुलिस के माध्यम से किया जाएगा किन्तु ऐसे सत्यापन के लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्रों के जारी किए जाने की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से सम्यक् रूप से भरे गए और हस्ताक्षरित सत्यापित प्रपत्र अभिप्राप्त करने और स्व-घोषणा करने के पश्चात् अस्थाई नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी विधि के न्यायालय से दोषसिद्ध पाया जाता है तो ऐसे आवेदक/अभ्यर्थी को अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि पर विचार किए बिना नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(2) किसी अभ्यर्थी की दशा में जिसके विरुद्ध अन्वेषण विचारण (ट्रायल) लंबित है, नियुक्ति का विकल्प तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि अभ्यर्थी/आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान समाशोधन प्राप्त नहीं कर लेता है ऐसा अभ्यर्थी केवल इस कारण से अधिक आयु का हुआ नहीं समझा जाएगा।

(3) पद को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा और अभ्यर्थी को पश्चात्पूर्ति होने वाली रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

20. नियुक्ति और परीक्षा.—चिकित्सा उपयुक्तता (फिटनेस) की घोषणा और चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन के पश्चात् अंतिम गुणागुण सूची में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। प्रारंभिक भर्ती पर समस्त पुलिस कांस्टेबलों को पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा यथा अवधारित बैचों में प्रवेश प्रशिक्षण/भर्ती प्रशिक्षण कोर्स करना होगा। प्रशिक्षण की अवधि नौ मास की होगी और प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और उसकी अनुसूची ऐसी होगी जैसी पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थायी आदेशों के माध्यम से अधिसूचित की जाए। समस्त कांस्टेबल ऐसे चक्रानुक्रम और विशिष्ट प्रशिक्षण द्वारा वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे, जैसे पुलिस महानिदेशक द्वारा अवधारित किए जाएं। जिला सशस्त्र रिजर्व और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के अधिकारियों के लिए वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कोर्स के साथ-साथ अन्य विशिष्ट कोर्सों की सामग्री और कार्यप्रणाली ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड के सामान्य निर्देशों के अधीन पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए। यदि कोई भर्ती किए जाने वाला व्यक्ति प्रवेश प्रशिक्षण/भर्ती प्रशिक्षण कोर्स का उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी सेवा पर्यवसित किए जाने हेतु दायी होगी।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का भर्ती प्रशिक्षण कोर्स के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और भर्ती प्रशिक्षण कोर्स सहित दो वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् ही स्थायीकरण किया जाएगा।

21. रोस्टर और वरिष्ठता.—(1) कांस्टेबल के संवर्ग (काडर) की बाबत आरक्षित रिक्तियों की संख्या को अवधारित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती हेतु समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रोस्टर के आधार पर जिलावार रोस्टर का अनुस्मरण किया जाएगा।

(2) चयनित कांस्टेबलों (अभ्यर्थियों) की वरिष्ठता सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस विषय पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार काडर (संवर्ग) के स्तरानुसार अनुरक्षित किया जाएगा।

22. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना अनिवार्य या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेशों द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को शिथिल कर सकेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of this Department notification No. Home (A) A(3)2/2020 dated 8-4-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 04th May, 2021

No. Home (A) A (3)-2/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 141 read with section 23 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007),

the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules for carrying out the purposes of the Act *ibid*;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) with regard to the same, he/she may send the same to the Additional Chief Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within a period of 15 days from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government before finalization of the said rules, namely:—

PART-I

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Himachal Pradesh Police Department (Recruitment of Constables) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Punjab Police (Himachal Pradesh Amendment) Rules, 2011 notified *vide* this Department Notification No. Home (A) A(3)-1/2005-Part, dated 11-03-2011 are, hereby, repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra*, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

PART –II

3. Recruitment of constables.—Recruitment shall be done 100 percent on regular basis once a year or at such frequency as may be required based on vacancies as may be determined.

4. Number and apportionment of posts.—(1) The number of posts shall be such as determined/ created by the Government, from time to time.

(2) Posts of constables will be filled on the basis of ratio of population of district. The women shall be provided Twenty five percent (25%) horizontal reservation and will be filled up in all the categories of recruitment separately.

5. Appointing authority.—The Superintendent of Police of the concerned District shall be the appointing authority.

6. Pay and allowances.—The official shall draw such pay and allowances as may be determined by the State Government in this regard, from time to time.

7. Reservation.—(1) Vertical Reservation amongst SC/ST shall be as per Government instructions on the subject from time to time. In tribal district, the percentage of reservation will be governed by the instructions of the Tribal Development Department applicable to District Level Cadres. Vertical Reservation for OBC will be granted as per specific instructions of the State Govt. from time to time. Horizontal reservation for ex- servicemen, wards of freedom fighters, An today, IRDP, distinguished sports person and Home Guards will be granted as per Government instructions issued from time to time. Further, the persons belonging to Economically Weaker

Sections (EWSs) who are not covered under the Scheme of reservation for SCs, STs and OBCs shall be provided 10% Vertical Reservation in direct recruitment of Constables in the Himachal Pradesh Police Department.

(2) In case a post reserved under vertical or horizontal reservation cannot be filled up from that category, the post shall be kept vacant and the matter shall be referred by the Chairman of the District Recruitment Committee to the DGP.

(3) The requisition for vacancies of ex-servicemen shall be sent by the Chairman of the District Recruitment Committee to the Secretary, Ex- servicemen Cell, Hamirpur to sponsor names. The requisition shall specify the number of posts for each District and the names will be sponsored accordingly.

(4) In the event of non-availability of suitable/eligible candidate against the vacancy reserved for Ex-servicemen, the vacancy shall be carried forward for 2 calendar years and in the 3rd year the said vacancy shall be filled up from the dependent sons, daughters and wives of Ex-Servicemen. If in the 3rd year, the eligible/suitable candidate for whom the vacancy is reserved is not available, the same may be filled up from the respective residuary category to which the point belongs in that year itself. When it is obvious that Ex-servicemen would not at all be available for appointment to any category of posts, the posts so reserved for ex-servicemen may be filled-up by dependent sons, daughters and wives of ex-servicemen with the prior concurrence of the Ex-servicemen Cell, Himachal Pradesh. In case, sons, daughters and wives of Ex-servicemen for posts authorized to be filled are not available then reservation will be carried forward for 2 calendar years where after the vacancy shall be filled up from the respective residuary category to which the point belongs.

8. Eligibility.—(1) Education and other qualifications and physical standards will be as follows:—

Sl. No.	Category	Age	Edu. Qlf.	Height		Chest for male candidate only
				Male	Female	
1.	General	18 to 25 yrs	10+2	5'-6"	5'-2"	31"x 32"
2.	SC/ST	18 to 27 yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
3.	OBC	18 to 27 yrs	10+2	5'-6"	5'-2"	31"x 32"
4.	Gorkhas	18 to 27 yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
5.	Home Guard (General/OBC)	20 to 28 yrs	10+2	5'-6"	5'-2"	31"x 32"
6.	Home Guard (SC/ST)	20 to 28 yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
7.	Home Guard (Gorkhas)	20 to 28 yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
8.	Distinguished Sportsman (General/OBC)	18 to 27 yrs	10+2	5'-6"	5'-2"	31"x 32"
9.	Distinguished Sportsman (SC/ST)	18 to 27 yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
10.	Distinguished Sportsman (Gorkhas)	18 to 27 yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"

(2) In case of Ex-serviceman minimum qualification shall be matriculation. However, whenever the vacancies go to the wards of Ex- serviceman the education qualification will be 10+2.

(3) A candidate shall be eligible for recruitment to the post of Constable, if he/she has passed Matriculation and 10+2 from any Institution/School/Board situated within Himachal Pradesh:

Provided that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

9. Procedure for inviting application.—(1) Recruitment shall be done by way of advertisement in leading daily newspapers at least one of which will be in the local vernacular. Wide publicity will also be given through local channels of All India Radio. Online applications shall be called from the candidates who fulfil the educational and other qualifications. Only such candidates can apply who on the date of publication of the advertisement in the newspaper are Bonafide Himachali. The advertisement shall specify the age, educational and other qualifications and physical standards and the District-wise likely number of vacancies including reserved vacancies in each category separately for male and female candidates.

(2) A processing fee as may be determined by the Director General of Police from time to time shall be charged from the General Candidates and 1/4th of this fee shall be charged from applicants belonging to SC/ST/OBC, women, IRDP and EWS. The amount of processing fee so collected from the candidates will be utilized to meet the expenditure to be incurred by the Department in connection with the recruitment. For this purpose a separate bank account will be operated by the Himachal Pradesh Police Recruitment Board. Addl. Director General of Police, Armed Police and Training will be the Chairman of this Board. All Inspectors General/ Dy. Inspectors General of Ranges and Inspector General (Adm. and Welfare) shall be members of this Board. This Board shall be responsible for overall supervision of the recruitment process.

10. Online application procedure.—The candidates shall read the instructions carefully, which are also available on the website of the Police Department *i.e.* http://www._____ before filling up Online Recruitment Application (ORA) for the post of Constable. Incomplete ORA submitted without requisite examinations fee, scanned photograph and scanned signatures of prescribed size, will be rejected straightway. ORA will be considered only in respect of vacancies of the District in which the applicant is ordinarily resident according to the Bonafide Himachali Certificate obtained by the candidate. No certificate or copies of certificates will be attached with the ORA. Instead every applicant will give itself undertaking that the information furnished by him/her in the ORA is true and correct. The actual verification of original certificates will be done only in respect of candidates who are called for 'Evaluation' and any applicant having made an incorrect or false declaration shall stand disqualified automatically at that stage. A candidate shall only be considered against the district shown as his residence in the Bonafide Himachali Certificate. A cut off date to declare one's category to avail reservation will be provided in the Recruitment Notice/ Advertisement and after that no change of category will be entertained.

11. (1) Recruitment shall be conducted in each district headquarters by a Committee which shall be headed by the Range IG/DIG, other members being one commandant of the State Police Battalion as nominated by the Director General of Police, District S.P and one Medical Officer to be nominated by the Chief Medical Officer of the concerned district. The Committee shall co-opt a Gazetted Officer belonging to the SC/ST in case these categories are unrepresented in the Committee. The Committee may co-opt requisite number of Gazetted Officers /Non-Gazetted Officers to assist it in the recruitment process.

(2) All ORA received shall be generated serially numbered District-wise.

12. Physical standard test.—(1) The committee shall cause the candidates to be measured for height and in the case of male candidates for chest expansion. All measurements will be taken by a Medical Officer which shall be recorded in the Candidate Sheet and signed by the Medical Officer and countersigned by a Member of the Committee. The Committee shall award marks only for height as per the following table:—

Sl. No.	Height for Male candidate	Height for female candidate	Marks
1.	Less than 5'-7"	Less than 5'-2"	0 Mark
2.	5'-7" but less than 5'-8"	5'-2" but less than 5'-3"	1 Marks
3.	5'-8" but less than 5'-9"	5'-3" but less than 5'-4"	2 Marks
4.	5'-9" but less than 5'-10"	5'-4" but less than 5'-5"	3 Marks
5.	5'-10" but less than 5'-11"	5'-5" but less than 5'-6"	4 Marks
6.	5'-11" and above	5'-6" and above	5 Marks

(2) Candidates who do not meet the standards specified in sub-rule (1) of rule 8 shall be summarily declared unfit and informed accordingly.

13. Physical efficiency test of candidates.—(1) List of candidates who are found eligible as per physical standards will be put up on the Notice Board in the District S.P. Office by the Committee immediately after completion of physical standards test and qualified candidates shall be called for Physical Efficiency Test which will be of qualifying nature alone as per the following details:—

Sl. No.	Event	Minimum qualifying standard for Males	Minimum qualifying standard for Female candidates
1.	1500 Meters Race for Male (800 Meters Race for Female)	6 Minutes 30 Seconds (No additional attempt is allowed)	4 Minutes 15 Seconds (No additional attempt is allowed)
2.	High Jump	1.25 Meters (Maximum three attempts are allowed)	Minimum 1 Meter, (Maximum three attempts are allowed)
3.	Broad Jump	4 Meters (Maximum three attempts are allowed)	3 Meters (Maximum

(2) The Committee shall cause to be entered the record of timing and distance of the Physical Efficiency Test in the Candidate's Sheet which will be duly signed by each member of the Committee.

(3) Candidates who fail to qualify in any event will be disqualified forthwith and will not participate in the remaining events.

(4) Videography of the Physical Efficiency Test and Written Examination will be done for the sake of transparency.

14. Basic list.—A Basic List including candidate's name, allotted registration number and marks scored in the Physical Standard Test will be prepared. The list shall be published online and displayed on the Notice Board of the concerned District S.P. Office and qualified candidates shall report for the Written Examination on the appointed date, time and venue.

15. Written examination.—Written examination will be held at District Headquarters only, preferably on the same day for all districts. Written examination will be of 80 marks of objective type of 60 minutes duration. It will include the following:—

- | | |
|------------------------|----------------|
| (a) English Language | — 16 questions |
| (b) Hindi Language | — 16 questions |
| (c) General Awareness | — 16 questions |
| (d) Maths and Science | — 16 questions |
| (e) Reasoning Aptitude | — 16 questions |

The syllabus for the above written examination shall be of 10+2 standard except Mathematics for which syllabus shall be of Matriculation standard.

Only those candidate will be deemed to have qualified for evaluation who score 50% marks in the written test in case of the candidate belonging to General/OBC categories and 40% marks in the case of those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes categories. The result of the written examination shall be put up online and also displayed on the Notice Board of the concerned District. S.P. Office displaying marks secured by all the candidates who appeared in the written examination.

16. Evaluation.—The selection to the post of Constables in the rank of Constables Class-III posts shall be made on the basis of the merit of written examination and specified educational qualification followed by evaluation, based on the following parameters:—

	Written Test(80 Marks) and Height (05 Marks)	Total 85 Marks
(i)	Weightage for the minimum educational qualification as per the provision of sub-rules (1) and (2) of rule 8 {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualifications, he/she will be allowed 1.25 marks (50 x 0.025 = 1.25)}	2.5 (Two & a half)
(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1 (One)
(iii)	Land less family/ family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority	1 (One)
(iv)	NCC Certificates will be given a weightage of 4 additional marks for NCC (C) certificate and 2 additional marks for NCC (B) Certificate. A Candidate, who has both these certificates, will be given marks only for NCC (C) Certificate. The Bharat Scout and Guide Medal winner in National level sports competitions.	4 (Four)
(v)	Candidate possessing LMV driving license	1.5 (one and a half)
(vi)	Candidate possessing following certificates in Sports: (a) International Level = 4 (b) National Level = 3	4 (Four)

	(c) State level = 2	
(vii)	Medal winner of National level sports competition as notified by Department of Personnel.	1 (One)
	Grand Total . .	100

17. Publication of final result.—(1) The final result will be the sum total of the marks obtained in the Basic List (rule 14), Written Test (rule 15) and Evaluation (rule 16). The final result showing the marks obtained in each of the three attributes out of 100 marks and also including the position of respective reserved categories shall be put up online and displayed in respect of all the candidates who appeared for the Evaluation on the Notice Board of the District S.P office immediately after completion of Evaluation. Claims to horizontal and or vertical reservation shall also be shown in the remarks Column in the final result Sheet.

(2) Waiting List shall also be prepared at the same time in similar manner which shall not be displayed and shall be kept in the office of S.P concerned to take care of an eventuality when a suitable candidate either fails to join or is not found fit for appointment subsequently.

18. Medical examination.—(1) The selected candidates shall undergo a medical examination by the relevant Medical Board. Medically unfit candidates shall be informed of rejection of their candidature. The result of the Medical Examination shall be displayed on the Notice Board of District S.P concerned.

The female candidate found pregnant at the time of Medical Examination shall be considered temporary unfit and shall re-appear for Medical Examination after her post-partum period of forty two days after delivery.

(2) An appeal against the medical report may be filed before the concerned District Superintendent of Police within 7 days of the display of the result of medical examination. The Superintendent of Police concerned shall cause a Review Medical Board to be constituted by the Chief Medical Officer of the concerned district. This Board shall submit its report within 30 days.

(3) Suitable candidate from the waiting list shall be substituted in the place of the candidates who have been finally declared medically unfit.

(4) The dope test shall be carried out to detect narcotics opiates at the outset of Physical Efficiency Test during the recruitment of Constables.

19. Character and antecedents.—(1) The verification of character and antecedents of the selected candidate who have been selected provisionally will be carried out through concerned district police but the process for issuance of appointment letters will not be withheld due to pendency of such verification. The appointing authorities will issue provisional appointment letters after obtaining the filled and duly signed attestation form and self declaration from the candidate. In case, a candidate is found to have been convicted in a court of law, applicant/ candidate shall not be offered appointment irrespective of the nature of the offence and the period of sentence.

(2) In case of a candidate against whom investigation trial is pending the offer of appointment may be held in abeyance until candidate/ applicant get clearance during investigation or trial. Such a candidate shall not be deemed to have become overage on this account alone.

(3) The post may be filled up from the waiting list and the candidate will be offered a subsequently occurring vacancy.

20. Appointment and probation.—The candidates appearing in the final merit list after declaration of Medical fitness and verification of character and antecedents shall be issued a letter of appointment by the concerned appointing authority. All Police Constables on initial recruitment shall undergo induction training/Recruits Training Course in batches as determined by the Director General of Police, HP. The period of training shall be 9 months and the syllabus of training and the schedule thereof shall be as may be notified by the Director General of Police, through Standing Orders. All Constables shall undergo annual refresher training programmes by such rotation and specialized training as may be determined by the Director General of Police. The content and methodology of the annual/ refresher training courses as well as the other specialized courses for the officers of the District Armed Reserve and State Armed Police Battalions shall be such as may be notified by the State Government on the recommendations of the Director-General of Police, subject to general directions of the State Police Board. In case a recruit is unable to pass the induction training/recruitment training course, his/her service shall be liable to be terminated. Recruits will be confirmed only after successful completion of RTC and probation of 2 years including RTC.

21. Roster and seniority.—(1) A district wise roster to determine the number of reserved vacancies in respect of Constable cadre shall be followed on the lines of the roster as specified by the State Government for direct recruitment from time to time.

(2) The seniority of the selected Constables shall be maintained by the respective Appointing Authority as per level of the cadre in accordance with the rules/instructions issued by the State Government on the subject from time to time.

22. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these rules.

By order,

MANOJ KUMAR,
Additional Chief Secretary (Home).

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

1. Mr. Ankit Sharma age 32 years s/o Sh. Dev Rah Sharma, r/o Village Labhan, P.O. Kaswar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Malika age 32 years d/o Sh. Raj Kumar, r/o #62 Pahari Market, Nangal, Distt. Rupnagar, Punjab. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व (अंकित शर्मा सपुत्र श्री देव राज शर्मा व मलिका पुत्री श्री राज कुमार) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-05-2021 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रुको देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द, वासी गांव समतानां खुर्द, डाकघर समताना कलां, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थीया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— नोटिस के माध्यम से प्रकाशन बारे।

प्रार्थना—पत्र श्रीमती रुको देवी ने हाजिर अदालत दायर किया है। प्रार्थिन का आवेदन है कि उनकी शादी सन् 1984 में श्री जगदीश चन्द के साथ हुई है। प्रार्थिन की शादी का सन् ग्राम पंचायत जनैहण के पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस अदालत द्वारा नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती रुको देवी व श्री जगदीश चन्द के विवाह के दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 26-05-2021 से पूर्व पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई एतराज मान्य नहीं होगा। किसी की भी आपत्ति प्राप्त न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थिन के विवाह का सन् दर्ज करने बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश दे दिये जाएंगे।

नोटिस आज दिनांक 26-04-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा पारित हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल अधिकारी,
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री बलदेव राज पुत्र रसीला राम, निवासी महाल भनेड, डाकघर स्युल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल भनेड व स्युल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री बलदेव राज पुत्र रसीला राम, निवासी महाल भनेड, डाकघर स्युल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम पंचायत रिकार्ड, पेन कार्ड व वोटर कार्ड में बलदेव राज पुत्र रसीला राम है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल भनेड में उसका नाम बलदेव सिंह पुत्र रसीला पुत्र मोहर सिंह दर्ज है जो सही न है व राजस्व महाल स्युल में उनका नाम तारा चन्द पुत्र रसीला पुत्र मोहर सिंह दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 20-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, No. 760010257 Rank Assistant Commandant, G.D. Harjeet Singh s/o Sh. Moti Chand, Village Gadiara, P.O. Bhora, Teh. Palampur, District Kangra H.P. in service record my wife name Bandini Devi wrongly entered. Correct name Bindra Devi vide affidavit dated 25-3-2021 before Executive Magistrate Palampur.

*Harjeet Singh s/o Sh. Moti Chand,
Village Gadiara, P.O. Bhora,
Teh. Palampur, District Kangra H.P.*

